

- (ii) आईएमपीएस और एनईएफटी
- (iii) सुकन्या समृद्धि योजना
- (iv) यूलिप
- (v) मंदी का बाजार
- (vi) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर
- (vii) ब्लू-चिप स्टॉक

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3256

I

Unique Paper Code : 2414001006

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : **Common Group Programme (UGCF)**

Semester : V – GE

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) Define financial planning and explain its importance for individuals and families.

(b) Discuss the concept and components of a family budget with examples.

OR

(c) What is the scope of financial literacy? Discuss its prerequisites in detail.

(d) Explain various avenues for savings from budget surpluses with examples.

(क) वित्तीय नियोजन को परिभाषित कीजिए तथा व्यक्तियों और परिवारों के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।

(ख) पारिवारिक बजट की अवधारणा और घटकों पर उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

या

(ग) वित्तीय साक्षरता का दायरा क्या है? इसकी पूर्व-आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

(i) Budget surplus vs. deficit

(ii) IMPS and NEFT

(iii) Sukanya Samriddhi Yojana

(iv) ULIP

(v) Bear market

(vi) Tax on short-term capital gains

(vii) Blue-chip stocks

(क) डेरिवेटिव को परिभाषित कीजिए और जोखिम प्रबंधन में कॉल और पुट विकल्पों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(ख) रक्षात्मक स्टॉक क्या हैं? मंदी के दौरान उनके महत्व पर चर्चा कीजिए।

या

(ग) संक्षिप्त नोट (निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त नोट लिखें) :

(i) बजट अधिशेष बनाम घाटा

- (ii) आईएमपीएस और एनईएफटी
- (iii) सुकन्या समृद्धि योजना
- (iv) यूलिप
- (v) मंदी का बाजार
- (vi) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर
- (vii) ब्लू-चिप स्टॉक

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3256

I

Unique Paper Code : 2414001006

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : Common Group Programme (UGCF)

Semester : V – GE

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) Define financial planning and explain its importance for individuals and families.
- (b) Discuss the concept and components of a family budget with examples.

OR

- (c) What is the scope of financial literacy? Discuss its prerequisites in detail.
 - (d) Explain various avenues for savings from budget surpluses with examples.
- (क) वित्तीय नियोजन को परिभाषित कीजिए तथा व्यक्तियों और परिवारों के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।
- (ख) पारिवारिक बजट की अवधारणा और घटकों पर उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

या

- (ग) वित्तीय साक्षरता का दायरा क्या है? इसकी पूर्व-आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

- (i) Budget surplus vs. deficit
- (ii) IMPS and NEFT
- (iii) Sukanya Samriddhi Yojana
- (iv) ULIP
- (v) Bear market
- (vi) Tax on short-term capital gains
- (vii) Blue-chip stocks

- (क) डेरिवेटिव को परिभाषित कीजिए और जोखिम प्रबंधन में कॉल और पुट विकल्पों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- (ख) रक्षात्मक स्टॉक क्या हैं? मंदी के दौरान उनके महत्व पर चर्चा कीजिए।

या

- (ग) संक्षिप्त नोट (निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त नोट लिखें) :
- (i) बजट अधिशेष बनाम घाटा

(क) संपत्ति बीमा पॉलिसियों की विशेषताओं और लाभों की व्याख्या कीजिए।

(ख) विशेषताओं और प्रीमियम के संदर्भ में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की तुलना कीजिए।

या

(ग) सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय नियोजन में पेंशन पॉलिसियों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

(घ) भारत में बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने में डाक जीवन बीमा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

5. (a) Define derivatives and discuss the role of call and put options in risk management.

(b) What are defensive stocks? Discuss their significance during a bear market.

OR

(c) **Short Notes** (Write short notes on any 3 of the following) :

(घ) बजट अधिशेष से बचत के विभिन्न तरीकों को उदाहरणों सहित समझाएँ।

2. (a) Discuss the concept of CIBIL score and its importance in availing bank loans.

(b) Compare and contrast e-banking and traditional banking services.

OR

(c) What is microfinance? Discuss its role in promoting financial inclusion.

(d) Explain the mortgage loan process and its key features.

(क) सिबिल स्कोर की अवधारणा और बैंक ऋण प्राप्त करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

(ख) ई-बैंकिंग और पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं की तुलना कीजिए।

या

3256

4

(ग) माइक्रोफाइनेंस क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(घ) बंधक ऋण प्रक्रिया और इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

3. (a) Write a detailed note on Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate.

(b) Explain the monthly income scheme post offices offer and its benefits.

OR

(c) Discuss the role of post office payment banks in promoting digital transactions.

(d) Compare the advantages of PPF over other savings schemes.

(क) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

3256

5

(ख) डाकघरों द्वारा दी जाने वाली मासिक आय योजना और इसके लाभों की व्याख्या कीजिए।

या

(ग) डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में डाकघर भुगतान बैंकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(घ) अन्य बचत योजनाओं की तुलना में पीपीएफ के लाभों की तुलना कीजिए।

4. (a) Explain the features and benefits of property insurance policies.

(b) Compare life insurance and health insurance policies in terms of features and premiums.

OR

(c) Discuss the relevance of pension policies in financial planning for retirement.

(d) Analyze the role of postal life insurance in meeting insurance needs in India.

P.T.O.